

थाना परौर



जनपद शाहजहाँपुर

@Shajahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य 27.02.2023

**थाना परौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता वर्ष 2020 से फरार चल रहा 10,000 का मफरूर अपराधी को
किया गिरफ्तार**

श्री एस0आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्र व शराब के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में श्रीमान संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल निर्देशन मे थाना परौर की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

आज दिनांक 27.02.2023 को थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना परौर के नेतृत्व मे थाना परौर की पुलिस टीम द्वारा वर्ष 2020 से फरार मु0अ0सं0 327/2020 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व मु0अ0सं0 39/2023 धारा 174(A) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र मौर्य पुत्र रमाशंकर मौर्य निवासी ग्राम नौगवा बघौनी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर को डिंपल भट्टा के सामने से समय 06.10 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त रविन्द्र मौर्य उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब वर्ष 2019 में मैने अपने साले की पत्नी हीराकली को अपनी 5 बीघा जमीन बेची थी फिर लालच में आकर मैने वही जमीन वर्ष 2020 में राजवीर जाटव पुत्र स्व0 प्रेमराज नि0 ग्राम कपसेडा थाना तिलहर शाहजहाँपुर को पांच लाख रूपये में दोबारा बेच दी थी । दाखिल खारिज होने के समय राजवीर को पता लगी तो मेरे खिलाफ थाना परौर में मुकदमा लिखा दिया था । मुकदमे की जानकारी होने पर मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी दिल्ली कभी फरीदाबाद में बदल बदल कर अपने परिवार सहित निवास कर रहा था । आज दिनांक 27.02.2023 को परिवार में होली मनाने के लिए फरीदाबाद से अपनी पत्नी व बच्चो को घर छोडकर वापस फरीदाबाद जा रहा था कि आप लोगो ने डिंपल भट्टे के पास से पकड लिया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम –

1. रविन्द्र मौर्य s/o रामशंकर मौर्य निवासी ग्राम नौगवा बघौनी थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 327/20 धारा 420, 467, 468, भादवि 471थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 39/2023 धारा 174(A) भादवि थाना परौर जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार
2. का0 1808 यतेन्द्र कुमार
3. का0 1774 सोमवीर
4. का0 2771 रिषी यादव

